

ETF कैसे काम करते हैं



एक एक्सचेंज-ट्रेडिड फंड (ईटीएफ) एक निवेश निधि है जो निवेशकों के एक समूह के स्वामित्व वाले शेयरों या बॉन्डों के रूप में निवेश का एक संग्रह रखता है और एक पेशेवर धन प्रबंधक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ईटीएफ एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है।

जानने वाली 4 बातें



जोखिम

जोखिम और वापसी का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि ईटीएफ किसमें निवेश करता है। आप ईटीएफ में निवेश करके पैसा गँवा सकते हैं।



पिछला प्रदर्शन

अतीत में ईटीएफ ने कैसा प्रदर्शन किया है, यह आपको नहीं बता सकता कि यह भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगा। लेकिन पिछला प्रदर्शन आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि ईटीएफ का रिटर्न कितना अस्थिर या जोखिम भरा हो सकता है।



ईटीएफ खरीदना और बेचना

आप स्टॉक एक्सचेंज पर ईटीएफ खरीदते और बेचते हैं, उसी तरह से जैसे स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं।



फीस

आप आम तौर पर ईटीएफ में निवेश करने के लिए कमीशन और प्रबंधन शुल्क का भुगतान करते हैं। निवेश खाता स्थापित करने की लागतें भी हो सकती हैं।

ईटीएफ पर कैसे कैसे कमाएँ

कुछ ईटीएफ निवेशकों को ईटीएफ द्वारा कमाया गया पैसा देते हैं। इन भुगतानों को वितरण (distributions) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आप प्राप्त कर सकते हैं:

- यदि ईटीएफ बॉन्ड में निवेश करता है, तो ब्याज वितरण,
- लाभांश वितरण अगर ईटीएफ उन शेयरों में निवेश करता है जो लाभांश का भुगतान करते हैं, या
- यदि ईटीएफ भुगतान किए गए से अधिक के लिए निवेश बेचता है तो कैपिटल गेन वितरण।

जो आपके वितरण के साथ होता है, वह यहां है:

- 1 नकद आपके खाते में तब तक रहता है जब तक आप अपनी निवेश फर्म को यह नहीं बता देते कि आप उसे कैसे निवेश करना चाहते हैं। आप जो खरीदते हैं उस पर आपको बिक्री कमीशन को भुगतान करना पड़ सकता है।
- 2 आपकी निवेश फर्म आपके लिए स्वचालित रूप से अधिक ईटीएफ इकाइयों या शेयरों को खरीदने के लिए एक कार्यक्रम की पेशकश कर सकती है। संभावित तौर पर आप इन स्वचालित खरीदों पर बिक्री कमीशन का भुगतान नहीं करेंगे।

ईटीएफ पर कर कैसे लगाया जाता है

आप इन पर कर का भुगतान करेंगे:

- जब आप इसे बेचते हैं, तो आप ईटीएफ से कोई भी पूंजीगत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और
- कोई भी वितरण जो आप ईटीएफ से प्राप्त करते हैं।

यदि आप कर-आश्रित खाते जैसे कि रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंगज़ प्लैन या रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इन्कम फंड के अंदर ईटीएफ रखते हैं, तो आप उस पैसे पर कोई कर नहीं देंगे जो आप निवेशों से कमाते हैं जब तक आप पैसा नहीं निकालते हैं। टैक्स फ्री सेविंगज़ अकाउंट के साथ, आप उस योजना में होने पर या उसे बाहर निकालने के दौरान आपके द्वारा कमाए गए धन पर कोई कर नहीं देंगे।



मुख्य तथ्य

ETFs म्युचुअल फंड के समान होते हैं जिसमें वे कई तरह के निवेश करते हैं। लेकिन यह स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह ट्रेड होता है।

Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca

[GetSmarterAboutMoney.ca](https://www.getsmarteraboutmoney.ca)

[GetSmarterAboutMoney](https://www.getsmarteraboutmoney.ca) [@smarter_money](https://twitter.com/smarter_money)



ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION

